

Department of Physics & Chemistry

Hindu Kanya Mahavidyalaya, Jind

Event: Industrial Visit

28th November, 2023

On November 28th, 2023 an industrial visit was organized under the joint aegis of the Department of Chemistry and Physics of Hindu Kanya Mahavidyalaya, Jind. The visit was presided over by the Principal of the college, Dr. Punam Mor. A total of 22 students of the Science Department were present in this industrial visit. DGM Production Mr. Deepak Raj & HR Manager Mr. Naresh Sharma from Haryana Leather Chemicals Limited gave brief information to the students about the process of leather and the chemicals used in it. He gave detailed information to the students about Chromatography, a method to detect and separate prohibited chemicals used in leather. The coordinators of this tour were Dr. Keauty and Mrs. Kranti. Mrs. Jyoti and Mrs. Pooja from the Science Department were present in this visit. President of the management committee of the college, Dr. Anshul Singla Ji and other members congratulated the teachers and the students of the department of Physics & Chemistry for their commendable work and encouraged the students to participate in such programmes in future also.

Glimpses & Media Coverage of the Event

